



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 1982/ भाद्र 15, 1904
No. 397] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 1982/BHADRA 15, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ सहायी दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

संविमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 सितम्बर 1982

का० आ० 652 (अ) -- राष्ट्रपति सचिवालय के अनुच्छेद 77 के
खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भारत सरकार
(कार्य-आवटन) नियम 1961 में और मंशाधन करने के लिए निम्न-
लिखित नियम बनाने हैं अर्थात्

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवटन) एक
को पंचपत्रों मंशाधन नियम 1992 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम 1961 में--

(1) प्रथम अनुसूची में --

(क) प्रविष्टि 1क नागरिक पूर्ति मंत्रालय का मन्त्र्यांक बदलकर
1ग कर दिया जाए और इस प्रकार पुनर्स्थापित की
गई प्रविष्टि में पञ्च निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्त-
स्थापित किया जाए अर्थात्--

1क रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

1ख नागर विमानन मंत्रालय।

(ख) प्रविष्टि 6 ऊर्जा मंत्रालय के स्थान पर निम्नलिखित
प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्--

6 ऊर्जा मंत्रालय

(1) पेट्रोलियम विभाग।

(II) विद्युत विभाग।

(III) कोयला विभाग।

(IV) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग।

(ग) प्रविष्टि "13 श्रम मंत्रालय के स्थान पर, निम्नलिखित
प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्--

"13 श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(1) श्रम विभाग।

(II) पुनर्वासि विभाग।

(घ) प्रविष्टि "15 पेट्रोलियम मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय"
का लोप किया जाए,

(ङ) प्रविष्टि "21 पूर्ति और पुनर्वासि मंत्रालय" के स्थान पर,
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्--

"21 पूर्ति मंत्रालय,

(क) प्रविष्टि "22. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्—
"22. पर्यटन मंत्रालय।";

(ख) प्रविष्टि "26क. पर्यावरण विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्—
"26क. पर्यावरण विभाग।";

(ग) प्रविष्टि "29. अंतरिक्ष विभाग" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्—
"29क. खेल विभाग।";

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "कृषि और सहकारिता विभाग" उप-शीर्षक के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्—

"31. वन—वन नीति और जहाँ तक अंशमान और निकोबार द्वीपों का संबंध है, वनों और वन-प्रशासन में संबंध सभी मामलों में";

(ii) प्रविष्टि 45 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्—

"45. पशु-पालन जिसके अंतर्गत (क) कांजी हाउस और पशु-अनिवार; (ख) डोरो का उपयोग और बध है।";

(ख) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात्—

"रसायन और उर्वरक मंत्रालय

1. उर्वरकों का उत्पादन।
2. औषधियाँ तथा फार्मास्यूटिकल्स।
3. कीटनाशी [कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 64) के प्रशामन के अनुरिक्त]।
4. सींग—वितरण और मूल्य-निर्धारण।
5. एलकोहल—औद्योगिक और पेय, भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) सहित।
6. रंजक-द्रव्य और रंजक-अध्यक।
7. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टता प्राप्त नहीं किए गए हैं।
8. मंत्रालय द्वारा व्ययहून सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और सहायता।
9. इस मंत्रालय के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी सम्बन्धित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन।
10. इस मंत्रालय में सम्मिलित विषयों से संबंधित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएँ, उन परियोजनाओं को छोड़ कर जो किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग को विनिर्दिष्टता प्राप्त की गई हैं।
11. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20)।
12. पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०।

नागर विमानन मंत्रालय

1. मौसम विज्ञान संगठन
2. वायुयान और विमान नीचालन; हवाई अड्डों की व्यवस्था; हवाई यातायात और हवाई अड्डों का (विमान नीचालन से संबंधित स्वच्छता व्यवस्था के नियंत्रण के सिवाय) विनियमन और संगठन।
3. वायुयान की सुरक्षा के लिए बीकन तथा अन्य व्यवस्थाएँ।
4. वायुमार्ग से यात्रियों और माल का वहन।
5. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आई० सी० ए० ओ०)।
6. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई० ए० टी० ए०)।
7. कामनवेल्थ एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल (सी० ए० टी० सी०)।
8. कामनवेल्थ ऐडवाइजरी गैरोनॉटिकल रिसर्च काउंसिल।
9. वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) के अधीन स्थापित निगम
10. भारतीय होटल निगम।
11. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा।
12. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण।
13. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी भी बाबत विधियों के विरुद्ध अपराध।
14. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जाच और आंकड़े।
15. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के बारे में फीस, फिन्सु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं आती हैं।
16. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी से संबंध संधियों और करारों का कार्यान्वयन।

(ग) "शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. शिक्षा विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 9 और 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात्—
"9. शारीरिक शिक्षा।";

(घ) "ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात्—

"ऊर्जा मंत्रालय

क. पेट्रोलियम विभाग

1. प्राकृतिक गैस सहित, पेट्रोलियम के साधनों के लिए खोज और उनका दोहन।
2. प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों सहित, पेट्रोलियम का उत्पादन, मध्नाई, वितरण, विपणन और मूल्य निर्धारण।
3. तेल परिष्करणियाँ, जिनमें स्टेल्क संयंत्र शामिल हैं।
4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिये योज्य।
5. स्टेल्क मिश्रण गौर ग्रीस।
6. पेट्रो-रसायन।
7. सेपलोज रूग्नि मंगलण्ड श्लफाइबर (नायलान, पोलिऐस्टर, एक्रिलिक, आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग।

10. शिल्पकारों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ।

भाग II—हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा और दिल्ली के सभ राज्य क्षेत्रों के लिए अनिश्चित कार्य।

11 उपर्युक्त भाग II में वर्णित सदे।

भाग IV—उपर्युक्त भाग I II और III में वर्णित मामलों में से किसी के संबंध में अनुपपन्न कार्य।

12 अन्य दलों में की गई सत्रियों और करारों का कार्यान्वयन।

13 विधियों के तदनुसार अपराध।

14 जाच और अकटे।

15 पीसे, किन्तु वे फीस नहीं जो किसी न्यायालय से ली जाती है।

16 (उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) सब न्यायालयों की शक्तियाँ और अधिकारिता।

भाग V—प्रकीर्ण कार्य

17 रोजगार कार्यालय।

18 भारत में और विदेशों में दोनों जगह फौज और पर्यवेक्षक के स्तर पर शिक्षकों शिष्यकारों तकनीकज्ञों के प्रशिक्षण के लिए स्क्रीम, शिक्षा प्रशिक्षण।

19 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।

20 त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन।

21 युद्ध क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम 1933 और स्क्रीम।

22 आवश्यक सेवा (अन्तर्क्षण) अध्यादेश का प्रशासन।

23 कोयला खानों से भिन्न खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित विधियाँ का; और खान और अन्नक खान कल्याण के मुख्य निरीक्षक के संगठनों का प्रशासन।

24 भारतीय पत्तन श्रम अधिनियम 1934 का प्रशासन और तदनुसार बनाए गए विनियम और पत्तन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन विहित पत्तन कर्मकार (सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण) स्क्रीम।

25 चाय जिला उपप्रबन्धी श्रमिक अधिनियम और उपप्रबन्धी श्रम नियंत्रक संगठन का प्रशासन।

26 उपप्रवास अधिनियम 1922 (1922 का 7) के अन्तर्गत भारत में विदेशों को होने वाले सभी उपप्रवास और उपप्रवासियों की वापसी।

27 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रशासन।

28 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) और उपदाल सदाय अधिनियम 1972 (1972 का 39) का प्रशासन।

29 वैश्वीय क्षेत्र उपक्रमों में श्रम विषयक विधियों का प्रशासन।

30 श्रम संबंधी अकटे, श्रम ब्यरा के निदेशक का संगठन।

31 मुख्य श्रम आयतन का संगठन और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों, केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालयों राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन और प्रशासन।

32 कारखानों के मुख्य महाद्वारों का संगठन जिला और अंतर्गत केन्द्रीय श्रम संस्थान, उत्पादित और उद्योग के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र और सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के प्रादेशिक संग्रहालय है।

33 बागान श्रमिक और बागान श्रम अधिनियम 1951 (1951 का 69) का प्रशासन।

34 मजदूरी श्रम अधिकारियों की सभी नैतानी अन्तर्ण और प्रशिक्षण।

35 श्रम-जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 का प्रशासन।

36 कर्मकारों का शिक्षा संबंधी स्क्रीम।

37 प्रबन्ध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में स्क्रीम।

38, उद्योग में अनुशासन।

39 अन्तर्-अन्तर् उद्योगों के लिए मजदूरी बांझों का गठन।

40 माटर परिवहन कर्मकार की काम की वशाओं का अधिनियमन।

41 देश में श्रम विषयक विधियों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन।

ख पुनर्वास विभाग

1 भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास

सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित है

शिबिरो की स्थापना तदनुसार खोज का संगठन श्रम सुव्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।

पुनर्वास में निम्नलिखित सम्मिलित है

आवास, प्रशिक्षण और रोजगार भूमि, कारबार उद्योगों और अन्य कुपित व्यवसायों के संबंध में पुनर्स्थापन।

2 प्रत्येक भारतीय राष्ट्रिका का गठन और उनका पुनर्वास।

3 निम्नलिखित शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास।

4 जम्मू और काश्मीर में छद्म क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास। छद्म विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण।

5 वण्डकारण विकास योजना और वण्डकारण विकास प्राधिकरण

6 भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय शिबिरो, कार्यस्थल शिबिरो और कमी शिबिरो का प्रशासन।

7 पुनर्वास उद्योग नियम।

8 पश्चिमी बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में आए विस्थापित व्यक्तियों में संबंधित अवशेष समस्याएँ।

9 बंगाल देश में आए शरणार्थियों की अंतर्गठ समस्याएँ।

10 जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में आने वाले प्रवासियों की अवशेष समस्याएँ।

11 सनय-सनय पर प्रधान मंत्री द्वारा तदनुसार किए गए विशेष क्षेत्रों का विकास।

12 भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान जम्मू और काश्मीर पश्चिमी गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।

13 भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में आए विस्थापित व्यक्तियों में संबंधित अवशेष समस्याएँ।

14 निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन —

(क) निष्कांत संगठन का प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31)

(ख) निष्कांत हिंसा (पंचकरण) अधिनियम, 1951 (1951 का 61)

- (ग) विस्थापित व्यक्ति (आगमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 70)
- (घ) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिपक्ष और पुनर्वास) अधिनियम 1951 (1951 का 41)
- (ङ) विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुसूचक अधिनियम, 1954 (1954 का 12)
- (च) निष्कासित निक्षेपों का हेतुान्तरण अधिनियम, 1951 (1951 का 15)
- (छ) गोवा, दमण और दीव में निष्कासित सम्पत्ति का प्रशासन अधिनियम, 1961 में सम्बंधित मामलों।
15. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है, से आग विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई निष्कासित सम्पत्ति के संबंध में पाकिस्तान के साथ बातचीत।
16. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, से प्राप्त की सम्पत्ति का भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है से आग विस्थापित व्यक्तियों का दावा करना।
17. (क) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है से आग विस्थापित व्यक्तियों या अधिवासित प्रान्तों और स्थानीय निकायों में सरकार कर्मचारियों द्वारा पेंशन अधिकार निधि प्रकाश के अंतर्गत और प्रतिभूति निक्षेपों संबंधी दावों का संस्थापन और भुगतान।
- (ख) भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है से आग विस्थापित सरकार कर्मचारियों का पेंशन, भविष्य निधि अकाउंट के अंतर्गत और अनुसूचक पूर्वक सहायता के भुगतान, ठेकेदारों का उनके संस्थापित दावों के संबंध में सहायता के अनुदान के लिए उनके याजना भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी जो अब पाकिस्तान है से 1-1-1961 और 25-3-1971 के बीच आग पगल-भोगियों को सहायता का अनुदान।
18. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय में उचित मर्मा मूलतः अथवा अर्ध-स्थायी कार्यवाही अथवा अन्य संगठन।
- नोट—जहां विनिर्दिष्ट है उसे छोड़कर, सहायता और पुनर्वास के कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से निष्पादित और प्रशासित होते हैं।
- (क) "पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लिए किया जाए;
- (ख) "पूर्व और पुनर्वास विभाग" शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् --
- 'पूर्व मंत्रालय'
1. जिन मदों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रखना करने का कार्य किस मान्यता या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों का प्रयोग किया गया है, उनमें भिल स्टोर का केन्द्रीय सरकार के लिए कर निरीक्षण और रखना करने का कार्य।
2. अधिगो स्टोर में वस्तुएं।
3. जिन वस्तुओं का निरीक्षण और रखना करने का कार्य निदेशालय है से संबंधित पूर्व और पुनर्वास का अधिगो कार्य।
1. निम्नलिखित का प्रशासन
- (क) पूर्व और पुनर्वास मंत्रालय।
- (ख) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारियों का कार्यालय नई दिल्ली।
- (ग) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, घरेलू, कलकत्ता।
- (घ) 'पर्यटन और मानव विज्ञान मंत्रालय' शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् --
- पर्यटन मंत्रालय
1. पर्यटन विकास।
2. युवक हास्टल।
3. भारतीय पर्यटन विकास निधि तथा उसके अंतर्गत सरकार क्षेत्र के हॉटल/घोस्टल।
4. इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए राज और आकड़े।
- (ङ) 'पर्यावरण विभाग' शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् --
- 'पर्यावरण विज्ञान विभाग'
1. पर्यावरण और पर्यावरण विज्ञान।
2. जन्तुओं का परीक्षण तथा जन्तु पक्षियों और जन्तुओं का संरक्षण।
3. भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण।
4. भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण।
5. प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय।
6. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) 1974।
7. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उद्देश्य अधिनियम 1977।
8. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981।
- (च.) 'अन्य विभाग' शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पक्ष में निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाए, अर्थात् --
- 'अन्य विभाग'
1. खेलकूद, खेल, बालक संरक्षण, राष्ट्रीय अनुमानित स्पर्धा आदि।
2. (युवक हास्टल का छात्र) पूर्ण कर्मचारी क्रयकलाप, युवक सनराइज, कार्य निदेश, आदि।
- जैन सिंह,
साक्षर
- [सं० 74/2/11/82-मंत्रि०]
प्रेस कुमार अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 1982

S.O. 652(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the

President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and Fifty-fifth Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the First Schedule,—

(a) entry “1A. Ministry of Civil Supplies (Nagrik Poorti Mantralaya)”, shall be re-numbered as entry “1C”, and before the entry as so re-numbered, the following entries shall be inserted, namely :—

“1A. Ministry of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Mantralaya).

1B. Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanman Mantralaya).”;

(b) for entry “6. Ministry of Energy (Oorja Mantralaya)”, the following entry shall be substituted, namely :—

“6. Ministry of Energy,
(Oorja Mantralaya) :

(i) Department of Petroleum,
(Petroleum Vibhag).

(ii) Department of Power,
(Vidyut Vibhag).

(iii) Department of Coal,
(Koyala Vibhag).

(iv) Department of Non-conventional Energy Sources,
(Gair-Paramparik Oorja Srota Vibhag).”;

(c) for entry “13. Ministry of Labour (Shram Mantralaya)”, the following entry shall be substituted, namely :—

“13. Ministry of Labour and Rehabilitation,
(Shram aur Punarwas Mantralaya) :

(i) Department of Labour,
(Shram Vibhag).

(ii) Department of Rehabilitation,
(Punarwas Vibhag).”;

(d) entry “15. Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Petroleum, Rasayan aur Urvarak Mantralaya)”, shall be omitted ;

(e) for entry “21. Ministry of Supply and Rehabilitation (Poorti aur Punarwas Mantralaya)”, the following entry shall be substituted, namely :—

“21. Ministry of Supply,
(Poorti Mantralaya) :

(f) for entry “22. Ministry of Tourism and Civil Aviation (Paryatan aur Nagar Vimanman Mantralaya)”, the following entry shall be substituted, namely :—

“22. Ministry of Tourism,
(Paryatan Mantralaya).”;

(g) for entry “26A. Department of Environment (Paryavaran Vibhag)”, the following entry shall be substituted, namely :—

“26A. Department of Ecology,
(Paristhiti Vigyan Vibhag).”;

(h) after entry “29. Department of Space (Antariksh Vibhag)”, the following entry shall be inserted, namely :—

“29A. Department of Sports,
(Khel Vibhag).”;

(2) in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”, under sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)”,—(i) for entry 31, the following entry shall be substituted, namely :—

“31. Forests—Forest Policy and all matters relating to forests and forest administration in so far as the Andaman and Nicobar Islands are concerned.” ;

(ii) for entry 45, the following entry shall be substituted, namely :—

“45. Animal Husbandry including—(a) pounds and cattle trespass ; (b) cattle utilisation and slaughter.” ;

(b) after the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)” and the entries thereunder the following headings and entries shall be inserted, namely :—

“MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA).

1. Production of Fertilizers.

2. Drugs and Pharmaceuticals.

3. Insecticides [excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968)].

4. Molasses—distribution and pricing.

5. Alcohol—Industrial and potable, including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).

6. Dye-stuffs and dye-intermediates.

7. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.

8. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Ministry.
9. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under the Ministry.
10. Public sector projects concerned with the subjects included under this Ministry except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.
11. Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).
12. Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA).

1. Meteorological Organisation.
 2. Aircraft and air navigation ; provision of aerodromes ; regulation and organisation of air traffic and of aerodromes excepting sanitary control of air navigation.
 3. Beacons and other provision for the safety of aircraft.
 4. Carriage of passengers and goods by air.
 5. International Civil Aviation Organisation (ICAO).
 6. International Air Transport Association (IATA).
 7. Commonwealth Air Transport Council (CATC).
 8. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council.
 9. Corporations established under the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).
 10. Hotel Corporation of India.
 11. Chief Commissioner of Railway Safety.
 12. International Airports Authority of India.
 13. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.
 14. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
 15. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.
 16. Implementation of treaties and agreements relating to any of the matters specified in this list.” ;
- (c) under the heading “MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (SHIKSHA AUR SANSKRITI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF EDUCATION (SHIKSHA VIBHAG)”, for entries 9 and 10, the following entry shall be substituted, namely :—

“9. Physical education.” ;

- (d) for the heading “MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA).

A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)

1. Exploration for and exploration of petroleum resources, including natural gas.
2. Production, supply, distribution, marketing and pricing of petroleum, including natural gas and petroleum products.
3. Oil Refineries, including Lube Plants.
4. Additives for petroleum and petroleum products.
5. Lube blending and greases.
6. Petro-chemicals.
7. Industries relating to the production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon, Polyester, Acrylic, etc.).
8. Synthetic Rubber.
9. Plastics, including fabrication of plastic and plastic moulded goods.
10. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
11. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
12. Public sector projects falling under the subjects included in this list, Engineers India Limited and Indo-Burma Petroleum Company, together with its subsidiaries, except such projects as are specifically allotted to any other Ministry/Department.
13. The Oil Fields [(Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948)].
14. The Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959).
15. The Petroleum Pipelines [(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962)].
16. The Esso [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1974 (4 of 1974)].
17. The Oil Industry [(Development Act, 1974) (47 of 1974)].
18. The Burmah-Shell [(Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976 (2 of 1976)].
19. The Caltex [(Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited) Act, 1977 (17 of 1977)].

**B. DEPARTMENT OF POWER
(VIDYUT VIBHAG)**

1. General policy in the field of energy.
2. Research, development, technical assistance and all matters relating to hydro-electric and thermal power.
3. Administration of Indian Electricity Act, 1910.
4. Administration of Electricity (Supply) Act, 1948.
5. Central Electricity Board.
6. Central Electricity Authority.
7. Power Schemes in Union Territories.
8. The Damodar Valley Corporation.
9. National Projects Construction Corporation Limited.
10. Bhakra Management Board and Beas Project (except matters relating to irrigation).

**C. DEPARTMENT OF COAL
(KOYLA VIBHAG)**

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.
2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.
3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.
4. Low temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.
5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974.
6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.
7. The Coal Mines Welfare Organisation.
8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).
9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).
10. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.
11. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.
12. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and other Union Laws in so far as the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing; business incidental to such administration including questions concerning various States.

**D. DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL
ENERGY SOURCES (GAIR-PARAMPARIK
OORJA SROTA VIBHAG)**

1. Research and development of bio gas and programmes relating to bio gas units.

2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE)."

- (c) for the heading "MINISTRY OF LABOUR (SHRAM MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARWAS MANTRALAYA)

**A. DEPARTMENT OF LABOUR
(SHRAM VIBHAG)**

Part I—Union Subjects

1. In respect of Union Railways—payment of wages, trade disputes, hours of work from employees not covered by the Factories Act, and regulation of employment of children.
2. In respect of Docks—regulation of safety, health and welfare measures concerning dock labour.
3. Regulation of labour and safety in mines and oil-fields.

Part II—Concurrent subjects

4. Factories.
5. Welfare of labour—industrial, commercial and agricultural conditions of labour; provident funds; family pension, gratuity, employers' liability and workmen's compensation; health and sickness insurance, including invalidity pensions, old age pensions, improvement of working conditions in factories; canteens in industrial undertakings.
6. Unemployment Insurance.
7. Trade Unions; industrial and labour disputes.
8. Labour statistics.
9. Employment and unemployment except rural employment and unemployment.
10. Vocational and technical training of craftsmen.

Part III—Additional business for Union Territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura and Delhi.

11. Items mentioned in Part II above.

Part IV—Incidental business with respect to any of the matters mentioned in Parts I, II and III above.

12. The implementing of treaties and agreements with other countries.
13. Offences against laws.
14. Inquiries and Statistics.
15. Fees, but not fees taken in any court.
16. Jurisdiction and powers of all courts (except the Supreme Court).

Part V—Miscellaneous Business

17. Employment Exchanges.

18. Schemes for training of instructors, craftsmen, technicians at foreman and supervisory level, both in India and abroad, apprentice training.
19. International Labour Organisation.
20. Tripartite Labour Conferences.
21. War Injuries (Compensation Insurance) Act, 1943 and Scheme.
22. Administration of Essential Service (Maintenance) Act.
23. Administration of laws connected with safety and welfare in mines other than coal mines ; organisations of the Chief Inspector of Mines and Mica Mines Welfare.
24. Administration of the Indian Dock Labourers Act, 1934 and the Regulations made thereunder and the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961 framed under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948.
25. Administration of the Tea Districts Emigrant Labour Act and the Organisation of the Controller of Emigrant Labour.
26. All emigration under the Emigration Act, 1922 (7 of 1922) from India to overseas countries and the return of emigrants.
27. Administration of the Minimum Wages Act.
28. Administration of Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972).
29. Administration of Labour laws in central sphere undertakings.
30. Labour Statistics ; Organisation of Director, Labour Bureau.
31. Organisation of Chief Labour Commissioner and Constitution and administration of Central Government Industrial Tribunal, Central Government Labour Courts, National Industrial Tribunal.
32. Organisation of Chief Adviser Factories, including Central Labour Institute, Productivity and TWI Centres and Regional Museums of Safety, Health and Welfare.
33. Plantation Labour and Administration of Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951).
34. Recruitment, posting, transfer and training of Government Labour Officers.
35. Administration of the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.
36. Schemes regarding workers' education.
37. Schemes regarding workers' participation in management.

38. Discipline in industry.
39. Constitution of Wage Boards for individual industries.
40. Regulation of working condition of motor transport workers.
41. Evaluation of the implementation of labour laws in the country.

B. DEPARTMENT OF REHABILITATION (PUNARWAS VIBHAG)

1. Relief and Rehabilitation of displaced persons from former East Pakistan.
Relief includes :—
Establishments of camps, payment of cash doles, provision of other amenities and necessities.
Rehabilitation includes :
Housing, training and employment, resettlement on land in business, industries and other non-agricultural occupations.
2. Relief and rehabilitation of repatriated Indian nationals.
3. Relief and Rehabilitation of Tibetan refugees.
4. Relief and Rehabilitation of displaced persons from Chhamb area in Jammu and Kashmir. Chhamb Displaced Persons Rehabilitation Authority.
5. Dandakaranya Development Scheme and Dandakaranya Development Authority.
6. Administration of Central Camps, work site camps and Karmi Shibir for displaced persons from former East Pakistan.
7. Rehabilitation Industries Corporation.
8. Residuary problems relating to displaced persons from former East Pakistan, in West Bengal.
9. Residuary problems of refugees from Bangladesh.
10. Residuary problems of migrants from Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir.
11. Development of such special areas as may be indicated by the Prime Minister from time to time.
12. Relief and Resettlement of persons affected in border areas of Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat and Rajasthan during the Indo-Pak Conflict, 1971.
13. Residuary matters relating to displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.
14. Administration of following Acts :
(a) Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950).
(b) Evacuee Interest (Separation) Act, 1951 (64 of 1951).

- (c) Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951 (70 of 1951).
- (d) Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).
- (e) Displaced Persons (Claims) Supplementary Act, 1954 (12 of 1954).
- (f) Transfer of Evacuee Deposits Act, 1954 (15 of 1954).
- (g) Matters relating to Goa, Daman and Diu Administration of Evacuee Property Act, 1964.
15. Negotiations with Pakistan concerning evacuee property left by displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.
16. Restoration of movable property received from former West Pakistan now Pakistan to the displaced persons from former West Pakistan now Pakistan.
17. (a) Verification and payment of claims of displaced persons from former West Pakistan now Pakistan who were Government servants in the undivided provinces, and local bodies in respect of pension, provident fund, leave salary and security deposits.
- (b) Ad-hoc schemes for payment of pension, G.P. Fund, leave salary and ex-gratia relief to displaced Government servants from former West Pakistan now Pakistan, grant of relief to the contractors in respect of their verified claims; grant of relief to pensioners migrated from former East Pakistan and West Pakistan now Pakistan between 1-1-1961 and 25-3-1971.
18. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
- N.B.—Except where specified, the programmes of relief and rehabilitation are executed and administered through the State Governments.”;
- (f) the heading “MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)” and the entries thereunder shall be omitted;
- (g) for the heading “MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION (POORTI AUR PUNARWAS MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—
- “MINISTRY OF SUPPLY (POORTI MANTRALAYA)
1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than the items the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.
 2. Disposal of surplus stores.
3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Unit and Directorate General Ship Repairs.
4. Administration of—
- (a) Directorate General of Supplies and Disposals.
 - (b) Office of the Chief Pay and Accounts Officers, New Delhi.
 - (c) National Test House, Alipore, Calcutta.”;
- (h) for the heading “MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)”, and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—
- “MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA).
1. Development of Tourism.
 2. Youth Hostels.
 3. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels/Motels thereunder.
 4. Inquiries and statistics for the purpose of any of the matters specified in this list.
- (i) for the heading “DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (PARYAVARAN VIBHAG)”, and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—
- “DEPARTMENT OF ECOLOGY (PARIS-THITI VIGYAN VIBHAG).
1. Environment and Ecology.
 2. Wild life preservation and protection of wild birds and animals.
 3. Botanical Survey of India.
 4. Zoological Survey of India.
 5. National Museum of Natural History.
 6. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
 7. The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.
 8. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
- (j) after the heading “DEPARTMENT OF SPACE (ANTARIKSH VIBHAG)”; and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—
- “DEPARTMENT OF SPORTS (KHEL VIBHAG)
1. Games, sports, boy scouts, girl guides, National Discipline Scheme, etc.
 2. Youth Welfare activities (excluding youth hostels), youth festivals, work camp, etc.”.
- ZAIL SINGH
PRESIDENT
- [No. 74/2/11/82-Cab.]
PREM KUMAR, Additional Secretary